

आदरणीय / आदरणीया,

कृपया मुझे सारी जानकारी निचे दिए हुए बिंदु के आधार पर प्रदान करें यदि कोई बिंदु की जानकारी न होने पर उसका उचित कारण भी प्रदान करें | मुझे सारी जानकारी मेरे प्रश्न और आपके उत्तर के साथ दें और सारी जानकारी डिजिटल माध्यम से प्रदान करें |

१) चालक लाइसेन्स (Driving License) को आधार से जोड़ने का नियम कब लागू हुआ और कितने प्रतिशत आधार से जोड़ दिए गए हैं |

२) गाड़ियों का पंजीकरण आधार के जरिये जोड़ने का कार्य कब आरम्भ हुआ और कितने प्रतिशत आधार से जोड़ दिए गए हैं |

३) डिजिटल माध्यम से गाड़ियों की लेनदेन करने का नियम कब लागू हुआ |

४) गाड़ियों की लेनदेन नगद राशि के माध्यम से कितने प्रतिशत तक किया गया जनवरी २०१७ से अगस्त २०१७ तक |

५) नागरिको से सम्बंधित कितने कार्य पूर्णतः डिजिटल माध्यम से किया जाता है |

६) नागरिको से सम्बंधित कितने कार्य कागजी कार्यवाही के माध्यम से किया जाता है |

७) आपका कार्यालय कितने लेनदेन डिजिटल माध्यम से स्वीकार्य कर रहा है |

८) भीम एप्लीकेशन (BHIM App) से भुगतान आप के कार्यालय और विभाग कब से स्वीकार्य कर रहा है |

९) आपका कार्यालय एवं विभाग डिजिटल लेनदेन के लिए नागरिको को कैसे जानकारी प्रदान करता है |

१०) भीम एप्लीकेशन (BHIM App) के उपयोग के दिशानिर्देश आपका कार्यालय एवं विभाग वेबसाइट पर किस सेक्शन में मौजूद है |

११) वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ में आपका कार्यालय ने कितने प्रतिशत डिजिटल लेनदेन किया |

१२) आपके द्वारा नागरिको के कार्य को पूर्ण रूप से डिजिटल करने का नियम कब बनाया गया |

१३) आपका कार्यालय नागरिक कार्यो के अंत में नागरिको से सुझाव कैसे प्राप्त करता है |

१४) सभी तरह के लेनदेन के सूचना को सन्देश के माध्यम से नागरिको को देने का नियम कब बनाया गया |

१५) सेवा के अधिकार का पालन न होने पर दंड का क्या प्रावधान है |